



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133]  
No. 133]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/चैत्र 13, 1903  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1981/CHAITRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(अप्रत्यक्ष-कर प्रभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

सीमा-शुल्क

सां०का०वि० 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं० 117-सीमाशुल्क सं० सां०का०वि० 318(अ), तारीख 9 जून, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) शर्त (ब) का लोप किया जाएगा और शर्त (ङ) और (च) को क्रमशः शर्त (घ) और (ङ) के रूप में पुनः प्रक्षारित किया जाएगा;

(ii) प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रथम अनुसूची

क्रम सं०	साल का वर्णन	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची का शीर्ष सं०
1	2	3
1.	हाथी दांत, अविनिर्मित	05.01/15
2.	पौधे और वृक्षों के भाग (जिनके अन्तर्गत बीज और फल भी हैं) हाथियों, भालाड़, या अन्य पौधों जो इस प्रकार के हैं जो प्राथमिकतः इन्त खींचने के कारखाने में, फर्मेंसी में, या कोटनाशी, कवकनाशी या समरूप प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं चाहे वे ताजा, शुष्क, सम्पूर्ण, कटे हुए, पीसे हुए या चूणित हों,	12.07
3.	गौ-पशुओं, भेड़ या बकरियों की बनाव, बिना पिचली हुई, बिना पिचली हुई	15.01/08 और 15.08/13

1	2	3	1	2	3
	बसा से प्राप्त पिघली हुई या विलायक निष्कषित बसा (जिसके अन्तर्गत "प्रो-मियर जस" भी है)। मछली या समुद्री स्तनपायी प्राणियों की बसा और तेल चाहे परिष्कृत हो या नहीं/बसायुक्त अम्ल; परिष्करण से प्राप्त अम्ल तेल, बसायुक्त एल्कोहल।			जाने वाले प्रकार के तयार जल वर्णक, पेंट और इनेमल, अलसी के तेल में वर्णक, सफेद स्फिरिट टर्पेटाइन स्फिरिट, बार्निश या ग्रुथ पेंट या इनेमल मध्यम; स्टाम्प पत्रियां, फुटकर विक्रय किए जाने वाले एक प्रकार के रूप या पैकिंग में रंजक या रंग करने वाले पदार्थ।	
4.	अलसी का तेल, अखाद्य बनस्पति तेल (कच्चा)	15.07	12.	सुगंधित सोंबर्य और प्रसाधन निमित्तियों में उपयोग के लिए आवश्यक तेल और रेजिनोइड।	33.01/06
5.	कोकोआफली, साबुत या टूटी हुई, कच्ची या धुनी हुई	18.01/06	13.	स्नेहक निमित्तियां और एक प्रकार के ऐसी निमित्तियां जो वस्त्र, चमड़ा या अन्य सामग्री के लिए तेल देने या ग्रीस लगाने की प्रक्रिया के प्रयोग में आती हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी निमित्तियां नहीं हैं जिनमें भार के अनुसार 70 प्रतिशत या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमेनी खनिजों से प्राप्त तेल हों। कृत्रिम मोम (जिसके अन्तर्गत पानी में घुलने वाला मोम भी है); तैयार मोम, जो पायस बनाया हुआ नहीं है या जिनमें विलायक समाविष्ट नहीं है।	34.01/07
6.	ऊर्ध्वपात गन्धक को छोड़कर, सभी प्रकार की गन्धक, अवक्षेपित गन्धक और कोलोइडी गन्धक। ऐस्बेस्टस, कच्चा प्राकृतिक बोरेट और उसके सान्द्र (निस्तप्त हो या न हो,) परन्तु इसके अन्तर्गत प्राकृतिक सखण-जल से पृथक किए गए बोरेट नहीं हैं; कच्चा प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें शुष्क भार के आधार पर संगणित एच3 बी ओ3 85 प्रतिशत से अधिक नहीं।	25.01/32	14.	फेरी-ज्वलनशील और सभी रूपों में ग्रुथ स्वतः ज्वलनशील मिश्रित घातुएं।	36.01/08
7.	संसेचन पिच, संयोजी पिच, खनिज मोम, कच्चा पेट्रोलियम कोक और निस्तप्त पेट्रोलियम कोक	27.08, 27.12/13 और 27.14/16	15.	प्रकीर्ण रसायन उत्पाद	38.01/19
8.	प्रकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं, दुर्लभ मृदा धातुओं के, रेडियो-एक्टिव तरबों और आईसोटोपों के कार्बनिक और प्रकार्बनिक योगिक।	28.01/58	16.	कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक सामग्री, सेलुलोस एस्टर और ग्रुथ उनकी वस्तुएं।	39.01/06, 39.07
9.	कार्बनिक रसायन	29.01/45	17.	रबड़, संश्लिष्ट रबड़, फेटिक्स और उसकी वस्तुएं।	46.01/16
10.	अपघि और अपघि साध्यक	30.01, 30.03, 30.04/05	18.	कच्चा चर्म और खालें (फर वाली खालें से भिन्न) और चमड़ा।	41.01/41.02/10
11.	संश्लिष्ट कार्बनिक चर्म शोधन पदार्थ, और कार्बनिक चर्म शोधन पदार्थ; चर्म शोधन निमित्तियों चाहे उनमें प्राकृतिक चर्म शोधन सामग्री हो या नहीं; चर्म शोधन के लिए एंजाइमेटिक निमित्तियां (उदाहरण स्वरूप, वे जो एंजाइमेटिक अन्याशयी या जीवाण्विक उद्भव वाली हों); बनस्पति मूल के (जिनके अन्तर्गत रंजक काष्ठ सत और ग्रुथ बनस्पति रंजक सत भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत नील नहीं हैं) या पशु मूल के रंग करने वाले पदार्थ/मृत्तिकाशिल्प में युक्त प्रकार के तैयार वर्णक, तैयार वर्णक और तैयार रंग, काचनीय इनेमल और ग्लेज, द्रव द्युति और समरूप उत्पाद, जो सिरमिक इनेमलन और कांच उद्योग में प्रयोग में लाए जाते हैं; एंगोब (स्लिप), कांच के फिट और चूर्ण, कणिकाओं या पत्रकों के रूप में ग्रुथ कांच। बार्निश और लैकर, डिस्टेम्पर, चमड़ा बार्निश करने के लिए प्रयोग में लाए	32.01/03, 32.04/12	19.	फर वाली खालें और कृत्रिम फर, उसकी विनिमित्तियां।	43.01/04
			20.	अपरिष्कृत लकड़ी, चाहे उसकी छाल उतार दी गई हो या नहीं या अपरिष्कृत हो। लकड़ी जो स्थूलतः बगित हो या या अर्ध-बगित हो, किन्तु और अधिक विनिमित्त न हो। 5 मि०मी० से अधिक मोटाई की सम्बन्धमा कीरी गई, तराशी गई या छिली गई किन्तु और आगे तैयार न की गई लकड़ी। अनंत और चिप बोर्ड।	44.01/28
			21.	प्राकृतिक या पुंजित कार्क जिसमें कार्क बुझ और अपरिष्कृत कार्क भी सम्मिलित हैं।	45.01/04
			22.	रेयन में ग्रेड का काष्ठ गुंदा	47.01
			23.	मशीन से बने कागज और कागज के गत्ते (जिसके अन्तर्गत सेलुलोस बेडिंग भी हैं), चाहे रोलों में हों या पीटों में। चर्मपत्र या ग्रीस सह कागज और कागज	48.01/21

1	2	3	1	2	3
	के गत्ते और उनकी धुंधलकियां तथा ग्लेजित पारदर्शी कागज, रोलों में या शीटों में। मिश्रित कागज या कागज के गत्ते (किसी आसंजक से समतन परतों को विपका कर बनाए गए) विलेपित तलवाले या संसेजित चाहे भीतर कुछ भरा हो या नहीं, रोलों में या शीटों में मासीदार कागज और कागज के गत्ते (चाहे सपाट तल शीट वाले हों या नहीं) केपित, कुंचित, उत्कीर्णित या छिद्रित, रोलों में या शीटों में। संसेजित विलेपित, रंगीन सतह वाले, सुसज्जित सतहवाले या मुद्रित कागज (जो न केवल रूल किए हुए या लाइन मुद्रित या चौकोर से और जिनमें अन्वय 49 के अधीन मुद्रित सामग्री नहीं है) चाहे रोलों में हों या शीटों में।		31. पूर्ण (बेकिंग) और नमदा फिल्टर जिनके अन्तर्गत उन की वस्तुएं भी हैं; विशेष फैब्रिक, संसिकृत और लोपित फैब्रिक, इस प्रकार की टेम्पस्टेशन को वस्तुएं जो औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।	59.01/15, 59.16/17	
			32. बुने हुए फैब्रिक	66.01/06	
			33. पहनने की वस्तुओं के लिए तैयार उपसाधन	61.01/11	
			34. छातों के लिए उपसाधन	66.01/03	
			35. ऐसी प्रकृति के धर्षण पदार्थ (खंड, डिस्क, बाणर, स्ट्रेप, शीट, चेटें, रोल और वैसे ही अन्य वस्तुएं), जो कचनों या जैसी ही अन्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त हैं, जो एम्बेस्टाप, अन्य छवि पदार्थों या सेलुलोस पर आधारित हों चाहे उनमें टेम्पस्टेशन या अन्य सामग्री मिली हों या नहीं।	68.01/16	
24. अनुविष्ट (बेकालकोमानिग्रस)	49.08/11		36. प्रत्यक्षीय रूप में काम में आए जाने वाले तत्वों से विन्न, प्रकाशकीय कांच और प्रकाशकीय कांच से गठन; अरेजिड चक्षुओं के लेन्सों के लिए स्पेस और कांच काइबर जिनके प्रयोग कांच ऊन भी है।	70.71/13, 70.70	
25. अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 'क' और 'ख' श्रेणी का शहपूत का कच्चा रेशम।	50.02		37. प्रीबोवित होरे और सेवेट होरे का जूत	71.01/71.04	
26. कपित रेशमी सूत और नायल सूत	50.03/08		38. लोहा और इस्पात तथा उनकी वस्तुएं	73.01/40	
27. कृत्रिम फाइबर का सूत (अविच्छिन्न), मोनोफिल स्ट्रिप (कृत्रिम तन्तु और वैसे ही चीजें) और कृत्रिम फाइबर सामग्रियों की नकली कैंटगट संश्लिष्ट गट चाहे बहु दिवस्ट या गुफित हो या नहीं। कृत्रिम रेशों (अविच्छिन्न) के बुने हुए फैब्रिक जिसके अन्तर्गत शीर्ष सं० 51.01/03 के मोनो-फिल या पट्टी के बुने हुए फैब्रिक और रसायन अभिक्रिया की उच्च लघिष्णुता भाइलन-गट जो कि रबड़ के बंधन के लिए उपयुक्त है, भी हैं।	50.01/03 और 51.04		39. तांबा और उसकी वस्तुएं	74.01/03 से 74.09/19 तक	
28. भेड़ की या मेमने की ऊन, और अन्य पशुओं के बाल जो धुने हुए या कंकत-कृत नहीं हैं और उसके अन्तर्गत अवशिष्ट शीर्ष सूत, और उनके बुने हुए फैब्रिक भी हैं।	53.01/13		40. निकल और उसकी वस्तुएं	78.01, 75.02, 75.03, 75.04/06	
29. ऐसे कृत्रिम फाइबर/सूत में से, जिसमें कपास के भार की, जिसके अन्तर्गत कपास जॉनिम/कार्बुराय फैब्रिक भी हैं, प्रधानता है, विनिर्मित मिश्रित/संमिश्रित फैब्रिक।	55.07/09		41. एलुमिनियम और उसकी वस्तुएं	76.01, 76.02, 76.03/04 76.08, 76.08/ 07, 76.08/16	
30. कृत्रिम फाइबर (विच्छिन्न) और कृत्रिम फाइबर का अपशिष्ट (जिसके अन्तर्गत सूत का अपशिष्ट और कपित या गार्नेट किए हुए लते भी हैं) चाहे वे धुने हुए या कंकतकृत या अन्यथा कटाई के लिए तैयार किए हुए हों या नहीं, अविच्छिन्न फिलामेंट के कर्ष (टो)। कृत्रिम फाइबर का सूत (विच्छिन्न या अपशिष्ट)। कृत्रिम फाइबर के बुने हुए फैब्रिक (विच्छिन्न या अपशिष्ट)।	56.01/04, 56.05/06 और 58.07		42. शीसा और उसकी वस्तुएं	78.01 से 78.08 तक	
			42. जस्ता और उसकी वस्तुएं	79.01 से 79.06 तक	
			44. तांबा और उसकी वस्तुएं	80.01 से 80.08 तक	
			45. धातुक्रम में नियोजन अन्य आधारिक धातुएं और उनकी वस्तुएं।	81.01/04	
			46. आधार धातु के ताले और पंखाल (चाखी, संयोजन या विद्युत् प्रचालित) और उनके पुर्जे; आधार धातु के हृष्ट-वेगों, टूकों और उसी प्रकार की वस्तुओं के ऐसे फ्रेम, जिन में ताले बने हुए हैं और ऐसे फ्रेमों के पुर्जे। पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी के लिए आधार धातु की चाखियां। आधार धातु की इस प्रकार की फिटिंग तथा मढ़ाई जो फर्नीचर, दरवाजों, सीढ़ियों, छिड़ियों, पदों,	83.01/05	

1	2	3
	कोयल, जीमसाजी, टूकों, सत्तूकों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त है जिनके अन्तर्गत स्वतः जालित धारणाय आते हैं) ; आघार धातु के हैट-रेफ, हैटपैग, ब्रेकेट और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं। आघार धातु के या धातु कार्बाइड के सार; छड़े, मलिकाएं, प्लेटें, इलकट्रॉड, तथा अन्य समरूप उत्पाद, जो इस प्रकार की फलक्स सामग्री से सेपित तथा क्रोडित हैं जो धातु तथा धातु कार्बाइडों की सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, बेल्डिंग या उनके निक्षेप के लिए उपयोग में लाई जाती हैं ; संयोजित आघार धातु पूर्ण के ऐसे सार और छड़े जिनका उपयोग स्त्रे करने के लिए किया जाता है	
47 (क) वायुतरण, मशीनरी और यांत्रिक साधनों के पुर्जों और उपसाधन	84.01/02 से 84.60 तक और 84.65 तक	
(ख) अन्तर्दहन पिस्टन इंजन	64.06	
48. मलों, बाइलर शेलो, टंकिंगों, कुर्शों और इसी प्रकार की वस्तुओं के लिए टोडियों, फार्क वाल्व और समरूप सामान जिनके अन्तर्गत बांध कम करने वाले वाल्व और ताप स्थैतिक नियंत्रित वाल्व भी हैं :	84.61	
49. बास रोलर या सुई रोलर बेयरिंग	84.62	
50. संचरण श्रोट, कैंक, बेयरिंग हाउसिंग, प्लेन शीपट बियरिंग, गियर और गियरिंग (जिनके अन्तर्गत वर्षण गियर और गियर-बॉक्स और अन्य परिवर्तनों वाल गियर आते हैं) ; प्लानी ह्यूबल, पुली और पुली ब्लाक, क्लच और शीपट कपलिंग।	84.63	
51. अन्य सामग्री (उदाहरणार्थ एसबेस्टस, फेब्र और पेपर बोर्ड) के साथ संयोजित धात्विक पर्णों के या लेमिनेटेड धातु की गुण्डली के गैस्केट और समरूप जोड़ ; इंजनों, पाइपों, ट्यूबों और वैसी ही अन्य वस्तुओं के लिए, संरचना में असमरूप, गैस्केटों के सैट या संयूक्त जो कोण्डों, लिफ्टों या वैसी ही पैकिंग में रखे जाएं।	84.64	
52. विद्युत मशीनरी और उपस्कर; उनके पुर्जों	85.01, 85.02, 85.03, 85.04, 85.06, 85.06/07, 85.08, 85.09, 85.10, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.16, 85.16, 85.17, 85.18/27, 85.28	

1	2	3
53. रेल और ग्राम लोकमोटिवों और बल-स्टाक के पुर्ज। रेल और ग्राम पथक्कि-जर और फिटिंग ; सड़क, रेल या अन्य धानों, पोतों या वायुयानों को संभालने के लिए नियंत्रित करने वाले रेल यांत्रिक उपस्कर, जो विद्युत् शक्तिमान न हों ; पूर्वगामी फिक्सचर, फिटिंग या उपस्कर के पुर्जें।	86.03 और 86.10	
54. शीर्ष सं० 87.01, 87.02 87.03, 87.09/12 के अन्तर्गत आने वाले यानों के पुर्जें और उपसाधन।	87.04/08 87.09/12	
55. पोतों, नौकाओं और प्लानी फिक्सचरों के पुर्जें।	73.30, 84.68 और 79.01/03	
56. प्रकाशीय, फोटोचित्र, चलचित्र, भाष, करने वाले, जांच करने वाले, परिणाम, चित्रित और सत्यप्रिया संबंधी उपस्कर और साहित्य ; उनके पुर्जें।	90.01, 90.02, 90.03/04 90.07, 90.08, 90.09, 90.10, 90.11/12, 90.13, 90.14, 90.15, 90.17/18, 90.27, 90.28, 90.29	
57. सभी निम्नलिखित वस्तुओं के पुर्जें, जिनके अन्तर्गत बड़ी संचालन भी हैं :— समस्त प्रकार की बीवार बड़ियाँ और छोटी बड़ियाँ ; समय या दिन अभिलिखित करने का उपकरण ; समय अंतरालों को भापने, अभिलिखित करने या अन्यथा उप-स्थित करने के लिए बीवार बड़ों या छोटी बड़ों के संचालन पुर्जें बाना या तुल्यकालिक मोटर बाला उपकरण ; बीवार बड़ी या छोटी बड़ियों के संचालन, पुर्जों वाले या तुल्यकालिक मोटर वाले टाइम स्विच ; सभी उपर्युक्त वस्तुओं के पुर्जें।	91.01/0.11	
58. ग्रामोफोन, श्रुतलेखन मशीन और अन्य ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर और टैप-डैट, ध्वनि, शीर्ष संहित या रचित भी हैं, टेपोजन प्रतिध्वनि और ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, धुम्बकीय के पुर्जें, घटक और उपसाधन।	92.01/13	
59. चिकित्सीय, दस्त, शल्य चिकित्सीय या पशुचिकित्सीय फनीजर (उदाहरणार्थ यांत्रिक फिटिंग सहित अन्य शल्य सेजें, अस्पताल बिछोने), यांत्रिक उत्पान करने वाली, धूर्णी या ध्वनित गतिवाली दंत-चिकित्सक की और समरूप कुतियों के पुर्जें, घटक और उपसाधन।	94.01/04	

1	2	3
60.	बटन, घोर बटन मोल्ड, स्टड, कर्कशिक घोर प्रेम फास्तर, जिमके अन्तर्गत स्वेप, फास्तर, जिप फास्तर (स्लाइड फास्तर), घोर प्रेस-स्टड भी है ब्लैक घोर ऐसी वस्तुओं के भाग।	98.01/02

[प्रसिद्धिना सं० 105/फा० सं० 60/3/81-डी० बी० के०]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
(INDIRECT TAXES DIVISION)

NOTIFICATIONS  
New Delhi, the 3rd April, 1981

CUSTOMS

G. S. R. 272 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs [No. GSR 318 (E)] dated the 9th June, 1978, namely:—

In the said notification, —

- (i) the condition (d) shall be omitted and conditions (e) and (f) shall be relettered as conditions (d) and (e) respectively;
- (ii) for the First Schedule, the following shall be substituted, namely:—

THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Description of the goods.	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.
1	2	3
1.	Ivory, Unmanufactured	05.01/15
2.	Plants and parts (including seeds and fruit) of trees, bushes, shrubs or other plants, being goods of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, dried, whole, cut, crushed, ground or powdered.	12.07
3.	Fats of bovine cattle, sheep or goats, unrendered; rendered or solvent-extracted fats (including "premier jus") obtained from those unrendered fats. Fats and oils, of fish and marine mammals, whether or not refined. Fatty acids; acid oils from refining; fatty alcohols.	15.01/06 and 15.08/13
4.	Linseed Oil Non-Edible Vegetable Oils (Crude).	15.07

1	2	3
5.	Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.	18.01/06
6.	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur. Asbestos, Crude natural borates and concentrates thereof (calcined or not), but not including borates separated from natural boric acid containing not more than 85% of H3 BO3 calculated on the dry weight.	25.01/32
7.	Impregnation Pitch, Binder Pitch, Mineral Waxes, Raw Petroleum Coke and Calcined Petroleum Coke.	27.08, 27.12/13 and 27.14/16.
8.	Inorganic chemicals; organic and inorganic compounds of precious metals, of rare earth metals, of radioactive elements and of isotopes.	28.01/58.
9.	Organic Chemicals.	29.01/45.
10.	Drugs and Drugs Intermediates.	30.01, 30.03, 30.04/05.
11.	Synthetic organic tanning substances, and inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning materials; enzymatic preparations for pro-tanning (for example, of enzymatic, pancreatic, or bacterial origin). Colouring matter of vegetable origin (including dyewood extract and other vegetable dyeing extracts, but excluding indigo) or of animal origin. Prepared pigments, prepared pacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, liquid lustres and similar products, of the kind used in the ceramic, enamelling and glass industries engobles (slips); glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes. Varnishes and lacquers; distempers; prepared water pigments of the kind used for finishing leather; paints and enamels; pigments in linseed oil, white-spirits, spirits of turpentine, varnish or other paint or enamel media; stamping foils; dyes or other colouring matter in forms or packings of a kind sold by retail.	32.01/03 and 32.04/12
12.	Essential Oils and Resinoids for use in perfumery cosmetics and toilet preparations.	33.01/06.
13.	Lubricating preparations and preparations of a kind used for oil or grease treatment of textiles, leather or other materials, but not including preparations containing 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. Artificial waxes (including water schedule waxes); prepared waxes, not emulsified or containing solvents.	34.01/07

1	2	3	1	2	3
14. Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms.	36.08/08		28. Sheep or lamb's wool and other animal hair, whether or not carded or combed, including waste, tops, yarn and woven fabrics thereof.	53.01/13.	
15. Miscellaneous chemical products.	38.01/19.		29. Mixed/Blended fabrics manufactured out of man-made fibres/yarns in which cotton predominates in weight including cotton denim/cordurey fabrics.	55.07/09.	
16. Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and others; articles thereof.	39.01/06, 39.07.		30. Man-made fibres (discontinuous) and waste (including yarn waste and pulled or garnetted rags) of man-made fibres (continuous or discontinuous) whether or not carded or combed or otherwise prepared for spinning; continuous filament tow. Yarn of man-made fibres (discontinuous or waste). Woven fabrics of man-made fibres (discontinuous or waste).	56.01/04, 56.05/06 and 56.07.	
17. Rubber, synthetic Rubber, Factice and articles thereof.	40.01/16.		31. Wadding and Felt including articles thereof; special fabrics, impregnated and coated fabrics, textile articles of a kind suitable for industrial use.	59.01/15, 59.16/17.	
18. Raw hides and skins (other than fur skins) and leather.	41.01, 41.02/10.		32. Knitted fabrics.	60.01/06.	
19. Furskins and artificial fur; manufactures thereof.	43.01/04.		33. Man made accessories for articles of Apparel.	61.01/11.	
20. Wood in the rough, whether or not stripped or its bark or merely roughed down. Wood, roughly squared or half-squared, but not further manufactured. Wood sawn lengthwise, sliced or peeled, but not further prepared of a thickness exceeding 5 mm; veneers and chip board.	44.01/28.		34. Accessories for Umbrellas.	66.01/03.	
21. Natural or agglomerated Cork including Cork Wood and waste cork.	45.01/04.		35. Friction material (segments, discs, washers, strips, sheets, plates, rolls and the like) of a kind suitable for brakes, for clutches or the like with a basis of asbestos, other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials.	68.01/16.	
22. Rayon Grade Wood Pulp.	47.01.		36. Optical glass and elements of optical glass, other than optically worked elements; blanks for corrective spectacle lenses, and glass fibres including glass wool.	70.17/18, 70.20	
23. Paper and paper board (including cellulose wadding), machine-made, in rolls or sheets. Parchment or grease proof paper and paper-board, and imitations thereof, and glazed transparent paper, in rolls or sheets. Composite paper or paper-board (made by sticking flat layers together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets. Paper and paper-board, corrugated (with or without flat surface sheets) creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets. Paper and paper-board, impregnated, coated, surface coloured, surface-decorated or printed (not being merely ruled, lines or squared and not constituting printed matter within Chapter 49), in rolls or sheets.	48.01/21.		37. Industrial diamond and Synthetic Diamond Powder.	71.02/71.04.	
24. Transfers (Decalcomanias).	49.08/11.		38. Iron and Steel and articles thereof.	73.01/40.	
25. Mulberry Raw Silk of 'A' & 'B' Grade as per international standard.	50.02		39. Copper and articles thereof.	74.01/02 to 74.09/19.	
26. Spun Silk Yarn and Nail Yarn.	50.03/08		40. Nickel and articles thereof.	75.01, 75.02 75.03, 75.04/06.	
27. Yarn of man-made fibres (continuous); monofil strip (artificial straw and the like) and imitation catgut/synthetic gut whether or not Twisted or Braided or man-made fibre materials. Woven fabrics or man-made fibres (continuous); including woven fabrics of monofil or strip of Heading No. 51.01/03 including chemically treated High Tenacity Nylon Gut suitable for bonding to rubber.	51.01/03 and 51.04.		41. Aluminium and articles thereof.	76.01, 76.02, 76.03/04, 76.05, 76.06/07, 76.08/16.	
			42. Lead and articles thereof.	78.01 to 78.06.	
			43. Zinc and articles thereof.	79.01 to 79.06	
			44. Tin and articles thereof.	80.01 to 80.06.	
			45. Other base metal employed in metallurgy and articles thereof.	81.01/04.	
			46. Locks and padlocks (key, combination or electrically operated), and parts thereof, of base metal; frames incorporating locks, for handbags,	83.01/15.	

1	2	3	1	2	3
	trunks or the like, and parts of such frames, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal fittings of a kind commonly used for clothing. Base metal fittings and mountings of a kind suitable for furniture, doors, stair cases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, caskets and the like (including automatic door closures); base metal hat-racks, hat pegs, brackets and the like. Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, or agglomerated base metal powder, used for metal spraying.				
47. (a)	Parts and accessories of Boilers machinery and mechanical appliances.	84.01/02 to 84.60 and 84.65	53.	Parts of Railway and Tramway locomotives and Rolling-Stock. Railway and Tramway Truck fixtures and fittings; mechanical equipment, not electrically powered, for signalling to or controlling road, Rail or other vehicles, ships or Aircraft; parts of the foregoing fixtures, fittings, or Equipment.	86.09 and 86 10.
(b)	Internal Combustion Piston Engines.	84.06	54.	Parts and accessories of the vehicles falling within headings Nos. 87.01, 87.09/12, 87.02 or 87.03, 87.09/12.	87.04/06, 87.09/12.
48.	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like including pressure reducing valves and thermostatically controlled valves.	84.61	55.	Parts of ships, boats and floating structures.	73.30, 84.65 and 89.01/03.
49.	Ball roller or needle roller bearings.	84.62	56.	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus; parts thereof.	90.01, 90.02, 90.03/04, 90.07, 90.08, 90.09, 90.10, 90.11/12, 90.13, 90.14, 90.15, 90.17/18, 90.27, 90.28, 90.29.
50.	Transmission shafts, cranks bearing housings, plain shaft bearings, gears and gearing (including friction gears and gear-boxes and other variable speed gears), flywheels, pulleys and pulley blocks, clutches and shaft couplings.	84.63	57.	All parts including the Watch movements of the following articles :— Clocks and watches of all types, time or day recording apparatus; apparatus with clock or watch movements or with synchronous motor, for measuring recording or otherwise indicating intervals of time: time switches with clock or watch movement or with synchronous motor.	91.01/011.
51.	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material (for example, asbestos, felt and paper-board) or of laminated metal foil; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, for engines, pipes, tubes and the like, put-up in pouches, envelopes or similar packings.	84.64.	58.	Parts, components and accessories of gramophones, dictating machines and other sound recorders and reproducers, including record-players and tapedecks, with or without sound-heads; television image and sound recorders and reproducers, magnetic.	92.01/13.
52.	Electrical Machinery and Equipment parts thereof.	85.01, 85.02, 85.03, 85.04, 85.05, 85.06/07, 85.08, 85.09, 85.10, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.15, 85.16, 85.17, 85.18/27 and 85.28	59.	Parts, components and accessories of Medical, dental, surgical or veterinary furniture (for example, operating tables, hospital beds with mechanical fittings); dentists and similar chairs with mechanical elevating, rotating or reclining movements.	94.01/04.
			60.	Buttons, and button moulds, studs, cuff-links, and press-fasteners, including snap-fasteners, zip-fasteners (slide fasteners), and press-studs; blanks and parts of such articles.	98.01/02."

सा० का० नि० 273(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे संलग्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सामग्री को, जब उसका उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मास के निर्यात के विरुद्ध आयात (निर्यात) आदेश, 1955 के अधीन जारी की गई किसी आयात पुनःपूर्ति अनुज्ञप्ति के निष्कर्षों और शर्तों के अनुसार आयात किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखने हुए, उसके स्तंभ (4) में उपवर्णित सीमा तक उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं०	सामग्री का वर्णन	निर्यात किए जाने वाले मास का वर्णन	छूट की सीमा	छूट के लिए शर्तें
1	2	3	4	5
1	जंगरोधी इस्पात की शीटें या पट्टियां (अचुंबकीय)	अचुंबकीय जंगरोधी इस्पात शीटों वा पट्टियों से बने जंगरोधी इस्पात के बर्तन, सिक और अस्पताल के बर्तन	उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ; और	(1) निर्यातकर्ता, निर्यात के समय पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र में यह घोषित करता है कि—  (क) वह “शुल्क मुक्त आयात पुनःपूर्ति स्कीम” की सुविधा का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है ; और  (ख) वह उक्त निर्यात-मास पर शुल्क की वापसी का दावा नहीं करेगा।  (2) आयात पुनः पूर्तिअनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी—  (क) उक्त अनुज्ञप्ति पर “शुल्क मुक्त आयात पुनःपूर्ति स्कीम” शब्द पृष्ठांकित करता है और  (ख) उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन स्तंभ (2) में उपवर्णित आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात पदार्थों की मात्रा और मूल्य विनिर्दिष्ट करता है।
2.	रही पीतल	पीतल की कलात्मक वस्तुएं	सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय है।	
3.	जस्ता	जस्तदार इस्पात के पत्र, दृक्, तार और शीटें चाहे वे मालीदार हों या न हों।		
4.	न्यूजीलैण्ड की 40 एस और उससे कम हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन की अपरिष्कृत ऊन			

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[अधिसूचना सं० 106/का० सं० 602/8/81-डी० बी० के०]



**G. S. R. 273 (E):**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the materials specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India in accordance with the terms and conditions of an import replenishment licence issued under the Imports (Control) Order, 1955, against export of the goods specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, from the duty of customs and the additional duty leviable thereon to the extent indicated in column (4) thereof, subject to the conditions specified in column (5) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description of materials	Description of export goods	Extent of exemption	Conditions for exemption
1	2	3	4	5
1.	Stainless Steel Sheets or Strips (Non-Magnetic).	Stainless Steel utensils, Sinks and Hospital wares made of non-magnetic stainless steel sheets or strips.	Whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Act.	(1) The exporter at the time of export declares on the shipping bill or bill-of-export that— (a) he proposes to avail himself of the facility of the "Duty Free Import Replenishment Scheme"; and (b) he shall not claim duty drawback on the said export goods.
2.	Brass Scrap.	Brass Artware.		(2) The authority issuing the import replenishment licence—
3.	Zinc.	Galvanised Steel pipe tubes, wires and sheets, whether corrugated or not.		(a) endorses on the said licence the words "Duty Free Import Replenishment Scheme" and (b) specifies the quantity and the value of the materials, indicated in column (2), allowed to be imported under the said licence.
4.	Raw Wool of 40s and below, of New Zealand origin.	Hand knitted woollen carpets.		

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1982

[Notification No. 106/F. No. 602/8/81-DBK.]

सं० का० नि० 274(अ) — केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 120-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1978 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "(जो हाथ से कसीदा किए हुए अथवा हस्त-कालित मशीन द्वारा कसीदा किए हुए कपड़ों से मिले हों)" कोष्ठको और शब्दों का, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं० 107/का० सं० 602/8/81-डी० बी० के०]

**G. S. R. 274 (E):**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 120-Customs, dated the 19th June, 1978, namely:—

In the said notification, the brackets and words "(Other than hand-embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics)" wherever they occur shall be omitted.

[Notification No. 107/F. No. 602/8/81-DBK.]

सं० का० नि० 275(अ) — केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1981 के खण्ड 47 के, जो खण्ड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई शोषण के प्राधार पर विधि का बल रखता है, उपखण्ड (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 46-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपायुक्त अनुसूची में,—

- (क) क्रम सं० 164 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) क्रम सं० 196 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“197. सं० 106 सीमा-शुल्क, तारीख 3-4-1981” ।

[अधिसूचना सं० 108/फा० सं० 602/8/81-डी० बी० के०]

महेश कुमार, अवर सचिव

**G. S. R. 275(E):—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 47 of the Finance Bill,

1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 46-Customs, dated the 1st March, 1981, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification,—

- (a) serial No. 164 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) after serial No. 196 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:—

“197. No. 106 Customs, dated the 3-4-1981”

[Notification No. 108/F. No. 602/8/81—DBK.]

MAHESH KUMAR, Under Secy.